



असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 353] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 5, 1978/अग्रहायण 14, 1900
No. 353] NEW DELHI, TUESDAY, DEC. 5, 1978/AGRAHAYANA 14, 1900

इस भाग में छिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 1978

सा. का. नि. 571 (अ).—कम्पनी अधिनियम, 1856 (1956 का 1) की धारा 642 के साथ पठित धारा 58-क की उपधारा (2) के वाक्य (ख) और उपधारा 7 के वाक्य (ख) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, भारत के रिजर्व बैंक के परामर्श से, निम्नलिखित नियमों को, गैर-बैंक वित्तीय कम्पनी तथा विविध गैर-बैंक कम्पनी (विज्ञापन) नियम, 1977 का आगे संशोधन करने के लिए बनाती है, नामशः :

1. (1) इन नियमों को गैर-बैंक वित्तीय कम्पनी तथा विविध गैर-बैंक कम्पनी (विज्ञापन) संशोधन नियम, 1978 कहा जाएगा।

(2) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2. गैर-बैंक वित्तीय कम्पनी तथा विविध गैर-बैंक कम्पनी (विज्ञान) नियम, 1977 के नियम 2 के वाक्य (घ) में निम्नलिखित शब्द अन्तः स्थापित किए जाएंगे, नामशः

“और इसमें कोई अन्य कम्पनी जो वित्तीय संस्था है और जिस पर उपर्युक्त आदेश अनुच्छेद 19 के अन्तर्गत लागू होते हैं, शामिल होंगे”।

[मिसिल संख्या-1/151/75-सी. एल-11/10]

एस. सी. मिस्तल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LAW & COMPANY AFFAIRS

(Department of Company Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th December, 1978

G. S. R. 571(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2), and clause (b) of sub-section (7) of section 58A, read with section 642 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government, in consultation with the Reserve Bank of India, hereby makes the following rules further to amend the Non-banking Financial Companies and Miscellaneous Non-banking Companies (Advertisement) Rules, 1977, namely :—

1. (1) These rules may be called Non-banking Financial Companies and Miscellaneous Non-banking Companies (Advertisement) Amendment Rules, 1978.

- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In clause (d) of rule 2 of the Non-banking Financial Companies and Miscellaneous Non-banking Companies (Advertisement) Rules, 1977, the following words shall be inserted at the end, namely :—

“and includes any other company, which is a financial institution, to which the aforesaid Directions apply under paragraph 19 thereto”.

[1/151/75-CL. XI/X]

S. C. MITAL, Jt. Secy.